

Allegheny County Emergency Rental Assistance (Allegheny County आपातकालीन किराया सहायता)
COVID-19 के कारण आपकी नौकरी खो जाने या आय बंद हो जाने की स्थिति में उपलब्ध है

covidrentrelief.alleghenycounty.us

आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है



1. आवेदन केवल ऑनलाइन रूप से उपलब्ध है। यदि आप ऑनलाइन नहीं जा सकते या आपको उसे भरने में सहायता चाहिए, तो 412-248-0021 या rentalassistance@actionhousing.org पर संपर्क करें। काउंटी के आसपास मुफ्त वाई-फ़ाई और कंप्यूटरों सहित ड्रॉप-इन सेंटर भी खोले जाएंगे। उनमें से कुछ में स्कैनर और तकनीक के इस्तेमाल में सहायता के लिए स्टाफ मौजूद होगा।



2. आवेदन पाने के लिए आपको एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको एक ईमेल खाते की आवश्यकता होगी। क्या आपके पास ईमेल खाता नहीं है? नि:शुल्क bit.ly/gmailforrent या bit.ly/yahoorrent पर साइन अप करें।



3. किसी ऐसे स्थान पर अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड लिखें जिसे केवल आप ही देख सकते हों। दस्तावेज़ जोड़ने, अपनी संपर्क जानकारी बदलने या अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आवेदन पर वापस आने की स्थिति में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी।



4. आपके द्वारा अपना आवेदन जमा करने के बाद, इसे पाँच चरणों से गुज़रना होगा:

- आवेदन की समीक्षा
- किराएदार से संपर्क – अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा।
- पात्रता का निर्धारण– यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आपका आवेदन अगले चरण की ओर बढ़ता है। यदि नहीं, तो आपको लिखित अस्वीकृति प्राप्त होगी जिसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं।
- मकान मालिक से संपर्क
- भुगतान प्रक्रिया



वापस लॉगिन कर आप किसी भी समय इस प्रक्रिया में अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।



5. आगे की कार्रवाई के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे। आपसे संपर्क करने वाले व्यक्ति का संबंध ACTION-Housing, Urban League of Greater Pittsburgh या YWCA of Greater Pittsburgh से हो सकता है। हम सभी साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कृपया उनके फ़ोन कॉल का जवाब दें या उनके ईमेल का जवाब दें।

क्या आपके कोई सवाल हैं? ACTION-Housing को 412-248-0021 या rentalassistance@actionhousing.org पर संपर्क करें।